



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 20--दिसम्बर 26, 2003 (अग्रहायण 29, 1925)
No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DEC. 20 --DEC 26 2003 (AGRAHAYANA 29, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2 [PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएँ
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 दिसम्बर 2003

सं० ए-380 12/1/2003-प्रशा० I—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री आर० के० पंडित, भा० पु० से० (उत्तरांचल : 66), सचिव (सुरक्षा), मंत्रिमंडल सचिवालय 30 नवम्बर, 2003 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

सुनील मिश्र, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 2003

सं० ए-19(674)/93-प्रशा० II—योजना आयोग के श्री सुनील सरन, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड-II अधिकारी) की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आधार पर कृषि और सहकारिता विभाग में 4 वर्ष की अवधि के

1-372 GI/2003

(1021)

लिए उपसचिव के रूप में नियुक्ति हेतु चयन हो जाने के परिणामस्वरूप, उन्हें दिनांक 27-11-2003 (अपराह्न) से कृषि और सहकारिता विभाग को रिपोर्ट करने हेतु कार्यभार-मुक्त किया जाता है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 2 दिसम्बर 2003

सं० ए-19(739)/97-प्रशा० II—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, योजना आयोग, दिनांक 30-11-2003 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं। परिणामस्वरूप वे दिनांक 30-11-2003 (अपराह्न) से इस पद से कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

पश्चिमी घाट सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 नवम्बर 2003

सं० पी० सी० (पी) 18/प्रशा०/45/95-डब्ल्यूजीएस—
राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में सहायक निदेशक श्री अविनाश चन्द्र, जो वर्तमान में योजना आयोग के पश्चिमी घाट सचिवालय में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति पर हैं, को केन्द्रीय सिविल सेवा (सी०सी०एस) (पेंशन) नियम 1972 के नियम 48(1-ए) (ए) एवं एफ०आर०-56 (के) के अन्तर्गत दिनांक 1-12-2003 की (पूर्वाह्न) से सरकारी सेवा से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की अनुमति देते हैं।

2. श्री अविनाश चन्द्र ने दिनांक 5-11-2003 को स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु नोटिस दिया था और कम से कम तीन महीने की नोटिस अवधि की आवश्यकता को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सत्रम अधिकारी द्वारा इस शर्त पर माफ कर दिया गया है (दिनांक 19-11-2003 के कार्यालय ज्ञापन सं० पी०एफ०जी० (1558)/97/प्रशा०-I द्वारा सूचित) की दिनांक 4-2-2004 तक नोटिस की अवधि के तीन माह पूरे होने से पूर्व श्री अविनाश चन्द्र पेंशन के हिसते में परिवर्तन (कम्प्यूटेशन) हेतु आवेदन नहीं करेंगे।

3. स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के कारण श्री अविनाश चन्द्र दिनांक 1-12-2003 की पूर्वाह्न से पश्चिमी घाट सचिवालय में उनके दायित्वों में कार्यभार-मुक्त किए जाते हैं।

डी० (श्रीमती) इन्दु पटनायक, उप सलाहकार (एमएलपी)

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

सं० 226/7/2002 (डी०सी०)—दिनांक 8 जुलाई 2002 के अधिक्रमण में भारत निर्वाचन आयोग, परिसीमन अधिनियम, 2002 (अधिनियम सं० 2002 का 33) की धारा 5 की उपधारा (6) की शर्तों पर श्री सी० आर० ब्रह्मम जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होन पर 30-11-2003 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, के स्थान पर श्री शंगारा राम, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग को पदेन सचिव, परिसीमन आयोग पदाभिहित करता है।

ललित मोहन, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 दिसम्बर 2003

सं० 193/22/2003/(सीआरवी)—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री सी० आर० ब्रह्मम, सचिव दिनांक 30-11-2003 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गये।

नरेन्द्र नाथ बुटोलिया, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 नवम्बर 2003

सं० ए-12025/2/2000-प्रशा० I (वि० का०)—
राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामित किए जाने पर

श्री पंकज कपूर को दिनांक 13 नवम्बर 2003, के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में (सीधी भर्ती के आधार पर) रु० 14,300-400-18,300 के वेतनमान में केन्द्रीय सरकारी अधिवक्ता के पद पर नियुक्त करते हैं।

प्रकाश चन्द्र, उप सचिव

दिनांक 20 नवम्बर 2003

सं० ए०-12023/3/2003-प्रशा०-III (वि० का०)—
राष्ट्रपति, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 252 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री विमल गांधी, उपाध्यक्ष, आयकर अपील अधिकरण को दिनांक 20 नवम्बर, 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक आयकर अपील अधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करते हैं।

डी० आर० मीना, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

विधायी विभाग

(विधि साहित्य प्रकाशन)

नई दिल्ली, दिनांक 21 नवम्बर 2003

फा० सं० ए०-32012/2/2003-वि० सा० प्र० (प्र०)—
राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, श्री एम० सी० पांडेय, उप सम्पादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय को दिनांक 14 नवम्बर, 2003 के पूर्वाह्न से उक्त प्रकाशन में 10,000-15,200 रु० के वेतनमान में प्रोन्नति के आधार पर स्थानापन्न सहायक सम्पादक नियुक्त करते हैं।

2. श्री एम० सी० पांडेय, अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

एस० आर० डलेटा, अपर विधायी परामर्शी

नई दिल्ली दिनांक 4 दिसम्बर 2003

सं० ए० 12026/4/2002-प्रशा०-I (वि० वि०)—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति, श्री रामीसेट्टी श्रीनिवास को दिनांक 4 दिसम्बर 2003 की पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में रु० 10,000-325-15,200 के वेतनमान में सहायक विधायी परामर्शी के रूप में कार्य करने हेतु सहर्ष नियुक्त करते हैं।

श्री रामीसेट्टी श्रीनिवास 4 दिसम्बर, 2003 से दो वर्ष की अवधि तक परीक्षा पर रहेंगे।

एम० दास, उप सचिव

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 27 नवम्बर 2003

सं० के० 13017/1/2003-पू०एस०-II—भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, श्री बिप्लव कुमार शर्मा को अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए गोहाटी उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

सं० के० 13015/1/2003-पू०एस०-II—भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, (1) श्री तपन कुमार दत्त, (2) श्री ज्योतिर्मय भट्टाचार्य और (3) श्री सौमित्र सेन को उसी वरीयता क्रम में, अपना-अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसम्बर 2003

फा० सं० पीएफ/जी/179-प्रशा०-V—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के अधिकारी श्री ओ० पी० सेठी की पदोन्नति होने के फलस्वरूप उनका स्थानान्तरण संघ लोक सेवा आयोग से होने पर उन्हें दिनांक 25 11-2003 (पूर्वाह्न) से 12,000-13,500/- रु० के धेतनमान में राजभाषा विभाग में निदेशक (अनुसंधान) (संयुक्त निदेशक रा० भा०) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

अन्तर्राज्य परिषद सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 नवम्बर 2003

सं० ए-19011/4/2003-अ०रा०प०—राष्ट्रपति, श्री रवि ठीगरा, भा०प्र०से० (हि०प्र०-72) को 28 नवम्बर 2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक अन्तर्राज्य परिषद, सचिवालय गृह मंत्रालय में भारत सरकार के अपर सचिव स्तर एवं धेतनमान में परामर्शी के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अतनु बैनर्जी, निदेशक

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 दिसम्बर 2003

सं० 13017/66/2001-अ०भा०से०--(1)—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ सरकारों का सहमति से, केन्द्रिय सरकार, एतद्द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग के अधिकारी श्री आर० डी० सीणा, भा०प्र०से० (आर०आर० : 84) को दिनांक 10-11-2003 से, एक वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ संवर्ग में प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाए जाने का अनुमोदन करती है।

के० के० शर्मा, अधिकारी

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर 2003

सं०पी बी/2003/31—भारतीय विदेश सेवा(ख) के आशु लिपिक केडर के ग्रेड-I के अधिकारी और इस मंत्रालय में निजी सचिव के रूप में कार्य कर रहे श्री राजेन्द्र कृष्ण को अपना नाम श्री राजेन्द्र कृष्ण दनयाल बदलने की अनुमति प्रदान की जाती है। आगे से सभी सरकारी रिकार्डों और पत्राचार में उनको श्री राजेन्द्र कृष्ण दनयाल के रूप में जाना जायेगा।

भूपेन्द्र कुमार, प्रशासनिक अधिकारी(पी बी)

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 2003

सं० डी-II/460/सी एफ-01/2003—भारत के राष्ट्रपति ने श्री राधे श्याम गौएनका की कोलकाता में पौलेन्ड के अवैतनिक कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री राधे श्याम गौएनका के कौंसली क्षेत्राधिकार में पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार और सिक्किम राज्य होंगे।

पी० पी० सीरकार, प्रोटोकॉल उप-प्रमुख (एफ)

सं० डी-III/460/सी एफ-29/2002—भारत के राष्ट्रपति ने श्री रामअवतार गौएनका की मुम्बई में कीनिया गणराज्य के अवैतनिक कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री रामअवतार गौएनका के कौंसली क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र राज्य होगा।

पी० पी० सीरकार, प्रोटोकॉल उप-प्रमुख(एफ)

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

महालेखा नियंत्रक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 नवम्बर 2003

सं० ए-12025/2001/म०ले०नि०/ग्रुप ए/1978-87--
राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2001 में आयोजित
सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2001 के परिणाम के आधार
पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को भारतीय सिविल लेखा सेवा
(समूह-क) में परीवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में उनके नाम
के सामने दर्शाई गई तारीख से नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री आशीष कुमार सिंह	02-09-2002
2.	श्री विनोद कुमार अग्रवाल	24-03-2003
3.	श्री अरुण शर्मा	02-09-2002
4.	श्री बंछा निधि पाणि	02-09-2002
5.	श्री संतोष कुमार	02-09-2002
6.	श्री एच० अश्वेली	24-03-2003
7.	श्री वनलालदीना फताई	02-09-2002
8.	शुश्री जेनी किलांग	24-03-2003

राजू क्षरण, उप महालेखा नियंत्रक

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003 दिनांक 24 नवम्बर 2003

सं० 15011/01/2003-भा०व० सेवा-II—भारतीय
वन सेवा की 1996 बैच की आंध्र प्रदेश संवर्ग की अधिकारी
श्रीमती सुनीता जे मेशराम को अपना नाम श्रीमती सुनीता जे
मेशराम से श्रीमती सुनीता महेश भागवत बदलने की अनुमति
प्रदान की जाती है और सरकारी कार्यों के लिए वे सुनीता
महेश भागवत के नाम से जानी जायेंगी।

अशोक कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली-11, दिनांक 3 दिसम्बर 2003

सं० ए०-12025/150/94-सीएचएस०-I—राष्ट्रपति,
संघ लोक सेवा आयोग की सफाई पर डा० (श्रीमती)
नीता गुप्ता को 21-9-94 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक
केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2200-
75-2800-ब०रो०-100-4000 रु० (पूर्व संशोधित) के

वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा०
(श्रीमती) नीता गुप्ता को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना,
दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया
जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28 नवम्बर 2003

सं० ए० 15011/2/2003-प्रशासन-1—अधिवर्षिता की
आयु प्राप्त करने के बाद इस विभाग में श्री अशोक कुमार,
सलाहकार (भा० सा० सेवा) सरकारी सेवा से 30 नवम्बर,
2003 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए।

आर० के० शर्मा, अवर सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 नवम्बर 2003

सं० पी०एफ०/आर०/88-प्रशासन—राष्ट्रपति, श्री आर०
पी० अर्नेजा को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में 10,000-
325-15,200/- रु० के वेतनमान में दिनांक 31 अक्तूबर,
2003 (अपराह्न) से अवर सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त
करते हैं।

एस० एस० पनेसर, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 2 दिसम्बर 2003

मि०सं 2-6/95-प्रशासन (भाग)—राष्ट्रपति, सहर्ष वैज्ञानिक
तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के सहायक निदेशक (विषय)
श्री सत्यपाल अगोड़ा को उप-निदेशक (विषय) सामान्य केन्द्रीय
सेवा ग्रुप "क" राजपत्रित पद पर वेतनमान रूपए 10,000-
325-15,200/- में उसी कार्यालय में उनके कार्यभार ग्रहण
करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए नियुक्त करते हैं।

हेमचंद, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 नवम्बर 2003

का० सं० 17014/32/97-एस सी डी-4—राष्ट्रपति,
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के संगम
अनुच्छेद 53 के अनुसरण में श्री श्याम कपूर, उप सचिव
(एन एस डी पी), शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय,
नई दिल्ली को श्री विजय देव, निदेशक (डब्ल्यू एस), शहरी
विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, के स्थान पर राष्ट्रीय

सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के निदेशक मण्डल में निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश होने तक नियुक्त करते हैं।

हसीब अहमद, निदेशक

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 12 नवम्बर 2003

सं० 2000/स्था० (राज०म०) I/8/1—राष्ट्रपति जी, भारतीय रेल भंडार सेवा के निम्नलिखित प्रोवेशनरों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथि से सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
(सर्वश्री/श्री/कु०)		
1.	एच० राघवा० पेड्डी	08-09-2000
2.	कवि प्रकाश	04-09-2000
3.	अकमल बद्ध	04-09-2000
4.	रविन्द्र भाकर	04-09-2000
5.	संजय कुमार (अनंतिम)	20-09-2000
6.	भुवनेश माथुर	04-09-2000
7.	अमित दुबे	19-03-2001
8.	राकेश खरे	04-09-2000
9.	संजीव कुमार राँय	26-12-2000
10.	गुरभीत सिंह राजा	04-09-2000
11.	मनीश वी० वानखेडे	04-09-2000
12.	संजय दयाल	19-03-2001
13.	सुनील कुमार सिंह	04-09-2000
14.	अनिल कुमार विश्वकर्मा	03-10-2000
15.	सुनील आर० नन्दनकर	04-09-2000
16.	अलोक सिंह	04-09-2000
17.	संजय कुमार शेकीवार	19-03-2001
18.	विजय एम निनावे	04-12-2000

मनीष कुमार, संयुक्त निदेशक, स्था० (जी० आर०)
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 17 नवम्बर, 2003

सं० 2000/ई(जी आर)/I/4/1—राष्ट्रपति जी, भारतीय रेल यातायात सेवा के निम्नलिखित प्रोवेशनरों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख से सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
(सर्वश्री/श्री/कु०)		
1.	राजीव गुप्ता	26-12-2000
2.	अमित कुमार जैन	26-12-2000
3.	पृथुल कुमार (अनंतिम)	04-09-2000
4.	मनोज कुमार गांगेय	26-12-2000
5.	शिखा त्रिपाठी	04-09-2000
6.	राहुल हिमालयन	04-09-2000
7.	नितिन बंसल	05-01-2001
8.	वीना कुमारी वर्मा	04-09-2000
9.	मनोज कुमार मिश्रा	26-12-2000
10.	स्वाति सिन्हा	04-09-2000
11.	अविनाश कुमार मिश्रा	26-12-2000
12.	एस० अनवर हुसैन	04-09-2000
13.	कुन्दन कुमार	26-12-2000
14.	एस० थिरुवारंगा रामालिंगम	26-12-2000
15.	विक्रम सिंह राणा	26-12-2000
16.	जफर आजम	10-02-2002
17.	स्वादेश कुमार सिंह (अनंतिम)	02-01-2001
18.	दिलिप कुमार	04-09-2000
19.	यशवंत कुमार चौधरी	04-09-2000
20.	वालीजकर स्वप्निल आनंद (अनंतिम)	04-09-2000
21.	रजनीश कुमार	04-09-2000
22.	जनबंधु श्रीकान्त विश्वपाल	04-09-2000
23.	जयश्री एस० भोज	26-12-2000
24.	विनायक रामाचन्द्रन नायक	26-12-2000

मनीष कुमार, संयुक्त निदेशक, स्था० (जी० आर०)
(रेलवे बोर्ड)

सं० 2000/ई(जी आर) I/32/1—राष्ट्रपति जी, भारतीय रेल कार्मिक सेवा के निम्नलिखित प्रोवेशनरों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख से सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3
(सर्वश्री/श्री/कु०)		
1.	राकेश त्यागी	04-09-2000
2.	प्रामिला उपाध्याय	26-12-2000

1	2	3
3.	अञ्जन रे	04-09-2000
4.	सहर्ष वाजपेयी	26-12-2000
5.	प्रीती कटियार	04-09-2000
6.	विनिता	04-09-2000
7.	नीरज कुमार	04-09-2000
8.	हाफीज मोहम्मद	04-09-2000
9.	रजेन्द्र कुमार अग्रवाल	26-12-2000
10.	रुखाईरकम प्रताप सिंह	04-09-2000
11.	राजेन्द्र कुमार मीणा	26-12-2000

मनीष कुमार, संयुक्त निदेशक, स्था० (जीआर)
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 19 नवम्बर, 2003

सं० 2000/ई(जी०आर०) 1/10/1—राष्ट्रपति जी भारतीय रेल सेवा के निम्नलिखित प्रोवैशनों को प्रत्येक के मामले दर्शाई गई तारीख से सहर्ष नियुक्त करते हैं —

क्रम सं०	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3
सर्वश्री/श्री/कु०		
1.	विकास कुमार सिन्हा	18-12-2000
2.	अभिषेक स्वामी	04-09-2000
3.	मनोज कुमार जैन (अनंतिम)	04-09-2000
4.	रोहित कुमार	04-09-2000
5.	अभिलाषा झा	26-12-2000
6.	नीरज कुमार	13-09-2000
7.	वन्दना प्रियशी	27-12-2000
8.	रूपेश सिधवी	04-09-2000
9.	भास्कर चोराडिया	26-12-2000
10.	सुर्या लक्ष्मी चेल्लापिल्लै	10-09-2000
11.	कुमार अनिमेष	27-12-2000
12.	वी ईलानगोवन	04-09-2000
13.	एन० जयकुमार	27-12-2000
14.	चन्दन कुमार वर्मा	26-12-2000

1	2	3
15.	रामानंद भगत	04-09-2000
16.	वारे सुनील बाबूराव	04-09-2000
17.	पेन्टाकोटा सुरेश	26-12-2000

मनीष कुमार
संयुक्त निदेशक, स्था० (जी०आर०) (रेलवे बोर्ड)

दिनांक 2 दिसम्बर 2003

सं० 99/स्था० (रा०म०)/3/1—राष्ट्रपति जी भारतीय रेल इंजीनियरिंग सेवा (आई०आर०एस०ई०) के निम्नलिखित प्रोवैशनों को प्रत्येक के मामले दर्शाई गई तिथि से सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1	2	3
(श्री/श्रीमती/कु०)		
1	अनुपम सिंह	20-9-1999
2	गौरव जिन्दल	-वही-
3	पंकज कुमार गुप्ता	-वही-
4	के० वी० रामा मेहर	-वही-
5	अजीत कुमार मिश्रा	-वही-
6	धनंजया सिंह	-वही-
7	भांगले विनोद मधुकर	-वही-
8	संशय कुमार सिंह	-वही-
9	नटराज सिंह	-वही-
10	राधा मोहन सिंह	-वही-
11	राजेश कुमार श्रीवास्तव	-वही-
12	धरमेन्द्रा कुमार पाण्डे	27-9-1999
13	अतिरुद्धा मोहन कौशल	20-9-1999
14	अजया कुमार सामाल	-वही-
15	मोहम्मद शमीम	-वही-
16	राजेश कुमार गर्ग	-वही-
17	सिजन त्रिपाठी	-वही-
18	अखिल कुमार अग्रवाल	-वही-
19	रघु नन्दन गुप्ता	27-12-1999
20	हफीजुल्ला गुल अशफाक मोहम्मद	27-09-1999

1	2	3
21	राम कुमार सिंह	27-12-1999
22	अशोक कुमार पाण्डे	20-09-1999
23	कारुतुरी सूर्यानायाना (अनंतिम)	29-9-1999
24	मुकुल पंत	20-9-1999
25	आशीष श्रीवास्तव	-वही-
26	मोना श्रीवास्तव	-वही-
27	शैलेन्द्रा कुमार सिंह (अनंतिम)	-वही-
28	दासारी सुब्रह्मन्यम	-वही-
29	प्रेम प्रकाश पाण्डे	-वही-
30	राम प्रवेश यादव	-वही-
31	राहुल श्रीवास्तव	-वही-
32	रविन्दर सिंह राजपाल	-वही-
33	धर्मा श्रीनिवासा राव	-वही-
34	जितेन्द्रा कुमार	-वही-
35	सौरभ सिंह पटेल	-वही-
36	इन्द्र जीत वर्मा	23-9-1999
37	बी०एन०एस०चालम	20-9-1999
38	अलोक कुमार	-वही-
39	धर्मा प्रकाश	-वही-
40	अनिल कुमार	-वही-
41	मनाज कुमार सिंह	-वही-
42	सुशील कुमार यादव	-वही-
43	नीरज कुमार (अनंतिम)	-वही-
44	राजीव कुमार गुप्ता	-वही-
45	शैलेश कुमार मौर्या (अनंतिम)	27-12-1999
46	आनन्द भारती	-वही-
47	दिनेश कुमार शर्मा	-वही-
48	राजेश कुमार सिंह	-वही-
49	प्रणव कुमार	20-9-1999
50	अशोक कुमार सूर्यवंशी	-वही-
51	संजीव कुमार	-वही-
52	अवनीश वर्मा	-वही-
53	विनोद कुमार पासवान (अनंतिम)	-वही-
54	योगेश वर्मा	-वही-
55	सुशील कुमार	-वही-

1	2	3
56	विनोद कुमार	-वही-
57	कान्बले त्रिलास लक्ष्मणराव	-वही-
58	सुजीत संगम प्रियदर्शी	-वही-
59	मुकेश कुमार मीना	-वही-
60	महेश बाबू राव देकाटे	-वही-

मनीष कुमार, संयुक्त निदेशक, स्था० (राज०म०) (रेलवे बोर्ड)।

सं० 2001/ई/(जीआर) I/10/1—राष्ट्रपति जी भारतीय रेल लेखा सेवा के निम्नलिखित प्रोविजनरी को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख से सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
(सर्व श्री/श्रीमती/क०)		
1.	अमृता जोशी	02-09-2001
2.	आनंद कुमार	02-09-2001
3.	इंदु सी० नायर	02-09-2001
4.	अतुल छावड़ा	24-12-2001
5.	त्रिपुरेश धर द्विवेदी	24-12-2001
6.	अरविंद शर्मा	02-09-2001
7.	एन० वेंकाटेश	24-12-2001
8.	के० आर० अभिकानन्दा राव	10-09-2001
9.	अरविंद कुमार	24-12-2001
10.	एस० सेल्वा लक्ष्मी	02-09-2001
11.	कुसुमा एस० आर०	02-09-2001
12.	मकवाना भावनावेन माहीजीभाई	24-12-2001
13.	अनुप कुमार गौतम	24-12-2001
14.	गईसिधम काबूई	10-09-2001
15.	प्रियंका बासु ईशित	02-09-2001

मनीष कुमार, संयुक्त निदेशक, स्था० (जीआर) (रेलवे बोर्ड)।

दिनांक 4 दिसम्बर 2003

सं० 2001/ई(जीआर)I/32/1--राष्ट्रपति जी भारतीय रेल कार्मिक सेवा के निम्नलिखित प्रोपेक्षनरों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख से सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

क्र० सं०	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	(सर्वश्री/श्रीमती/कु०)	
1.	पतिदार सुखदेवेंद्र दयानंद	02-09-2001
2.	अमित वर्मा	02-09-2001
3.	यात्री दिनेश दधे	02-09-2001
4.	अमरनाथ दूबे	24-12-2001
5.	प्रशांत त्रिपाठी	24-12-2001
6.	ज्योत्सना पांडे	02-09-2001
7.	जगताप गोरक्षा विश्वनाथ	02-09-2001
8.	तिमोथी ताजोनांग गोमई	24-12-2001

मनीष कुमार, संयुक्त निदेशक, स्था० (जी आर)
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 4 दिसम्बर 2003

सं० ई आर बी-I/2003/2/102--श्री एस० पी० एस० जैन, भारतीय रेल इंजीनियर सेवा, महाप्रबंधक/मध्य रेलवे को 30-11-2003 के अपराह्न से सदस्य (इंजीनियरी), रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

आर० आर० भंडारी, सचिव, रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन मंत्रालय

स्थापना अनुभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 दिसम्बर 2003

सं० ए-38015/3/2003-स्था० पोत परिवहन मंत्रालय में उप-निदेशक (यांत्रिक) के पद पर कार्यरत श्री टी० के० दत्ता, अधिवर्षिता में पहुँचने के कारण भारतीय सेवा से दिनांक 30-11-2003 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

सुधेश कुमार शाही, अवर सचिव

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 नवम्बर 2003

सं० के-11011/13/96-डीडी-I ए केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम 1957 (1957 का 61) की धारा 3 की उप धारा (3) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में मुख्य इंजीनियर श्री प्रभाष सिंह को 18400-22400 के वेतनमान में 300 रु० प्रतिमाह के विशेष वेतन के साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण में सदस्य इंजीनियर के पद पर उनके द्वारा कार्यभार लेने की तारीख से तीन वर्ष के लिए अथवा दिनांक 30-9-2005 को उनकी सेवानिवृत्ति आयु होने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।

परमजीत सिंह, डेस्क अधिकारी (डीडी-I ए)

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 2nd December 2003

No. A-380121/2003-Ad.I—On attaining the age of superannuation, Shri R.K. Pandit, IPS (UL:66), Secretary (Security), Cabinet Secretariat, retired from Government service with effect from the afternoon of 30th November, 2003.

SUNIL MISHRA, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 27th November 2003

No. A-19(674)/93-Adm.II—Consequent upon his selection for appointment as Deputy Secretary in the Department of Agriculture & Cooperation on Central deputation basis for a period of four years, Shri Sunil Saran (Grade III Officer of IES), Senior Research Officer, Planning Commission is relieved w.e.f. 27.11.2003 (AN) to report to the Department of Agriculture & Cooperation.

K.K. CHHABRA, Under Secy.

The 2nd December 2003

No. A. 19(739)/97-Adm.II—On attaining the age of superannuation, Shri Rakesh Kumar, Senior Research Officer, Planning Commission has retired from Government Service with effect from 30.11.2003 (AN). Consequently, he has relinquished charge of the post w.e.f. 30.11.2003 (A.N.).

K.K. CHHABRA, Under Secy.

WESTERN GHATS SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 28th November 2003

No. PC(P)19/Adm/45/95-WGS—The President is pleased to permit Shri Avinash Chander, Assistant Director, Department of Expenditure, Ministry of Finance, presently on deputation to Western Ghats Secretariat, Planning Commission, as Senior Research Officer, to retire voluntarily from Government Service under FR 56 (k) read with Rule 48 (I-A) (a) of CCS (Pension) Rules 1972, w.e.f. the forenoon of 01.12.2003.

2. Shri Avinash Chander gave notice on 5.11.2003 for seeking voluntary retirement and the requirement of a minimum notice period of three months has been waived by the Competent Authority in the Ministry of Finance, Department of Expenditure subject to the condition that he will not apply for commutation of a part of pension before the expiry of the three months notice period on 4.2.2004 vide their Office Memorandum No. PFG (1558)/97/Ad.I dated 19.11.2003.

3. On his voluntary retirement Shri Avinash Chander stands relieved of his duties in the Western Ghats Secretariat w.e.f. the forenoon of 01.12.2003.

DR. (Mrs) INDU PATNAIK,
Dy. Adviser (MLP)

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 1st December 2003

No. 226/7/2003/DC/686—In supersession of Notification No. 226/7/2002(DC), dated 18th July, 2002, the Election Commission of India, in terms of sub-section (6) of Section 5 of the Delimitation Act, 2002 (Act No. 33 of 2002), hereby designates Shri Shangara Ram, Secretary, Election Commission of India as *ex-officio* Secretary, Delimitation Commission in place of Shri C.R. Brahman, who retired from Government service on superannuation w.e.f. 30.11.2003 (AN).

LALIT MOHAN, Under Secy.

New Delhi-110001, the 2nd December 2003

No. 193/22/9/2003(CRB/315)—On attaining the age of superannuation, Shri C.R. Brahman, Secretary retired from service w.e.f. the afternoon of 30.11.2003.

NARENDRA N. BUTOLIA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 17th November 2003

No. A. 12025/2/2000-Adm.I (LA)—On being nominated by the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Pankaj Kapoor, as Central Government Advocate in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice (on direct recruitment basis) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300, with effect from the forenoon of 13th November, 2003 and until further orders.

PARKASH CHANDRA, Dy.

New Delhi, the 20th November 2003

No. A-12023/3/2003-Admn.III (LA)—In exercise of the powers conferred by section 252 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the President is pleased to appoint Shri Vimal Gandhi, Vice-President of the Income Tax Appellate Tribunal, as President of that Tribunal with effect from the forenoon of 20th November 2003 and until further orders.

D.R. MEENA,
Jt. Secy. & Legal AdviserLEGISLATIVE DEPARTMENT
(VIDHI SAHITYA PRAKASHAN)

New Delhi, the 21st November 2003

No. A.32012/2/2003-VSP (Admn.)—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri M.C. Pandey, Sub-Editor in Vidhi Sahitya Prakashan, Legislative Department, Ministry of Law

and Justice to officiate as Assistant Editor in the said Prakashan on promotion basis with effect from the forenoon of 14th November, 2003 and until further orders in the pay scale of Rs. 10,000-15,200.

2. Shri M.C. Pandey will be on probation for a period of two years from the date of his appointment.

S.R. DHALETA,
Additional Legislative Counsel

New Delhi, the 4th December 2003

No. A. 12026/4/2002-Admn.I (L.D.)—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Ramisetty Sreenivas to officiate as Assistant Legislative Counsel in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200 in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice with effect from the forenoon of 4th December, 2003 and until further orders.

2. Shri Ramisetty Sreenivas will be on probation for a period of two years with effect from 4th December, 2003.

M. DAS, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110011, the 27th November 2003

No. K. 13017/1/2003-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Biplab Kumar Sharma, to be an Additional Judge of the Gauhati High Court, for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

DR. P.K. SETH, Jt. Secy.

No. K. 13015/1/2003-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (1) Shri Tapan Kumar Dutt, (2) Shri Jyotirmay Bhattacharya and (3) Shri Soumitra Sen, to be Judges of the Calcutta High Court, in that order of seniority, with effect from the dates they assume charge of their respective office.

DR. P.K. SETH, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 5th December 2003

No. F.No. PF/G/179-Ad.V—The President is pleased to appoint Shri O.P. Sethi, an officer of Central Secretariat Official Language Service on his transfer from Union Public Service Commission, on promotion, as Director (Research), (Joint Director (OI)) in the scale of pay of Rs. 12,000-16,500/- in the Department of Official Language w.e.f. 25-11-03 (FN).

S.K. BHATNAGAR, Under Secy.

INTER-STATE COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi-110011, the 28th November 2003

No. A. 19011/4/2003-ISC—The President is pleased to appoint Shri Ravi Dhingra, IAS (HP: 72), as Adviser, Inter-State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs in the rank and pay of Additional Secretary to the Government of India with effect from the forenoon of 28th November, 2003 and until further orders.

A. BANERJI, Director

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
& PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 2nd December 2003

No. 13017/66/2001-AIS(I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Governments of West Bengal and Chhattisgarh, the Central Govt. hereby accords approval for extension of deputation of Shri R.D. Meena, IAS (RR: 84), from the IAS Cadre of West Bengal, to the IAS cadre of Chhattisgarh for a further period of one year w.e.f. 10.11.2003.

K.K. SHARMA, Desk Officer

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 31st October 2003

No. 31/PB/2003—Shri Rajender Krishan, an officer of Grade I of Stenographer's Cadre of the Indian Foreign Service (B), working as a Private Secretary in this Ministry, has been permitted to change his name to Shri Rajender Krishan Danyal. Henceforth, in all official records and communications, he will be known as Shri Rajender Krishan Danyal.

BHUPENDER KUMAR
Administrative Officer (PB)

New Delhi, the 25th November 2003

No. D.III/460/CF-01/2003—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Radhe Shyam Goenka as Honorary Consul of the Government of Poland in Kolkata with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Radhe Shyam Goenka comprises the States of West Bengal, Jharkhand, Orissa, Bihar and Sikkim.

P. P. SIRCAR
Deputy Chief of Protocol (F)

No. D.III/460/CF-29/2002—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Ramavtar Goenka as Honorary Consul of the Republic of Kenya in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Ramavtar Goenka comprises the State of Maharashtra.

P. P. SIRCAR
Deputy Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)
CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS
New Delhi-110003, the 27th November 2003

No. A-12025/2001/CGA/Gr.A/1978-87—On the result of the Civil Services (Main) Examination, 2001 held by the Union Public Service Commission in 2001, the President is pleased to appoint the following candidates as Probationers in the Indian Civil Accounts Service (Group-A) with effect from the dates shown against each:—

S.No.	Name	Date of appointment
1.	Shri Ashish Kumar Singh	02.09.2002
2.	Shri Binod Kumar Agrawal	24.03.2003
3.	Shri Arun Sharma	02.09.2002
4.	Shri Banchha Nidhi Pani	02.09.2002
5.	Shri Santosh Kumar	02.09.2002
6.	Shri H. Atheli	24.03.2003
7.	Shri Vanlaldina Fanai	02.09.2002
8.	Ms. Jenny Kiloung	24.03.2003

RAJU SHARAN
Dy. Controller General of Accounts

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 24th November 2003

No. 15011/01/2003-IFS II—Smt. Sunitha J. Meshram, an officer of the Indian Forest Service of 1996 batch, borne on the Andhra Pradesh Cadre is permitted to change her name from Smt. Sunitha J. Meshram to Smt. Sunitha Mahesh Bhagwat and be known as Sunitha Mahesh Bhagwat for official purposes.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 3rd December 2003

No. A. 12025/150/94-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Neena Gupta to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000 (Pre-revised) in a temporary capacity with effect from forenoon of 21st September, 1994 until further orders. Dr. (Smt.) Neena Gupta is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi.

JAGDISH KUMAR
Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING)

New Delhi, the 28th November 2003

No. A-15011/2/2003-Admn.I.—On attaining the age of superannuation, Shri Ashok Kumar, Advisor (ISS) in this Department retires from Government service with effect from the afternoon of 30th November, 2003.

R. K. SHARMA
Under Secy.

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

New Delhi-110001, the 7th November 2003

No. PF/R/88-Admn.—The President is pleased to appoint Shri R. P. Arneja as Under Secretary in the Ministry of Youth Affairs & Sports in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the afternoon of 31st October, 2003.

S. S. PANESAR
Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 2nd December 2003

F. No. 246/95-Admn. (pt.).—The President is pleased to appoint Shri Saiyapal Arora, Assistant Director (S) of Commission for Scientific and Technical Terminology to the post of Deputy Director (Subject), General Central Service Group 'A' gazetted in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in the same office with effect from the date he assumes charge of the said post.

HEM CHAND
Under Secy. D-II

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

New Delhi-1, the 12th November 2003

No. 17014/32/97-SCD IV (pt.).—In pursuance of Article 53 of Article of Association of National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation, the President is pleased to appoint Sh. Shyam Kapoor, Deputy Secretary (NSDP), Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, New Delhi in lieu of Shri Vijay Dev, Director (WS), Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, New Delhi as Director on the Board of Directors of National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation with immediate effect and until further orders.

HASIB AHMAD
Director

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 12th November 2003

No. 2000/E(GR) I/8/1.—The President is pleased to appoint the following probationers in the Indian Railway Stores Service with effect from the date noted against each:—

Sl. No.	Name	Date of Joining
(S/Shri/Ms.)		
1.	H. Raghava Reddy	08-09-2000
2.	Kavi Prakash	04-09-2000
3.	Akmal Wadood	04-09-2000
4.	Ravinder Bhakar	04-09-2000
5.	Sanjay Kumar (Provisional)	20-09-2000
6.	Bhuvnesh Mathur	04-09-2000
7.	Amit Dubey	19-03-2001
8.	Rakesh Khare	04-09-2000
9.	Sanjay Kumar Roy	26-12-2000
10.	Gurmeet Singh Raja	04-09-2000
11.	Manish B. Wankhede	04-09-2000
12.	Sanjay Dayal	19-03-2001
13.	Sunil Kumar Singh	04-09-2000
14.	Anil Kumar Biswakarma	03-10-2000
15.	Sunil R. Nandankar	04-09-2000
16.	Alok Singh	04-09-2000
17.	Sanjay Kumar Shakywar	19-03-2001
18.	Vijay M. Ninawe	04-12-2000

MANEESH KUMAR

Jt. Dir., Estt. (GR)

Railway Board

The 17th November 2003

No. 2000/E(GR) I/4/1.—The President is pleased to appoint the following probationers in the Indian Railway Traffic Service with effect from the date noted against each:—

Sl. No.	Name	Date of Joining
(S/Shri/Ms.)		
1.	Rajiv Gupta	26-12-2000
2.	Anil Kumar Jam	26-12-2000
3.	Prithul Kumar (Provisional)	04-09-2000
4.	Manoj Kumar Gangey	26-12-2000
5.	Shukha Tripathi	04-09-2000
6.	Rahul Himafian	04-09-2000
7.	Nitin Bansal	05-01-2001

1	2	3
8.	Veena Kumari Verma	04-09-2000
9.	Manoj Kumar Mishra	26-12-2000
10.	Swati Sinha	04-09-2000
11.	Avinash Kumar Mishra	26-12-2000
12.	S. Anwar Hussain	04-09-2000
13.	Kundan Kumar	26-12-2000
14.	S. Thiruvarama Ramalingam	26-12-2000
15.	Vikram Singh Rana	26-12-2000
16.	Zafar Azam	10-02-2002
17.	Swadesh Kumar Singh (Provisional)	02-01-2001
18.	Dilip Kumar	04-09-2000
19.	Yashwant Kumar Chaudhary	04-09-2000
20.	Walinkar Swapnil Anand (Provisional)	04-09-2000
21.	Rajneesh Kumar	04-09-2000
22.	Janbandhu Shrikant Vishwapal	04-09-2000
23.	Jayashree S. Bhoj	26-12-2000
24.	Vinayak Ramachandra Nayak	26-12-2000

MANEESH KUMAR

Jt. Dir., Estt. (GR)

Railway Board

No. 2000/E(GR) I/32/1.—The President is pleased to appoint the following probationers in the Indian Railway Personnel Service with effect from the date noted against each:—

Sl. No.	Name	Date of Joining
(S/Shri/Ms.)		
1.	Rakesh Tyagi	04-09-2000
2.	Pramila Upadhyay	26-12-2000
3.	Anjan Ray	04-09-2000
4.	Saharsh Bajpai	26-12-2000
5.	Preeti Katiyar (Provisional)	04-09-2000
6.	Vinita	04-09-2000
7.	Neeraj Kumar	04-09-2000
8.	Hafis Mohamed	04-09-2000
9.	Rajendra Kumar Agrawal	26-12-2000
10.	Khwairakpam Pratap Singh	04-09-2000
11.	Rajendra Kumar Meena	26-12-2000

MANEESH KUMAR

Jt. Dir., Estt. (GR)

Railway Board

New Delhi, the 19th November 2003

No. 2000/E(GR) I/10/1.—The President is pleased to appoint the following probationers in the Indian Railway Accounts Service with effect from the date noted against each:—

S. No.	Name	Date of Joining
	(S/Shri/Ms.)	
1.	Vikas Kumar Sinha	18-12-2000
2.	Abhishek Swami	04-09-2000
3.	Manoj Kumar Jain (Provisional)	04-09-2000
4.	Rohit Parmar	04-09-2000
5.	Abhilasha Jha	26-12-2000
6.	Niraj Kumar	13-09-2000
7.	Bandana Preyashi	27-12-2000
8.	Rupesh Singhvi	04-09-2000
9.	Bhaskar Choradia	26-12-2000
10.	Surya Lakshmi Chellapilla	10-09-2000
11.	Kumar Animesh	27-12-2000
12.	B. Ilangovan	04-09-2000
13.	N. Jaikumar	27-12-2000
14.	Chandan Kumar Verma	26-12-2000
15.	Ramanand Bhagat	04-09-2000
16.	Ware Sunil Baburao	04-09-2000
17.	Pentakota Suresh	26-12-2000

MANEESH KUMAR
Jt. Dir., Estt. (GR)
Railway Board

New Delhi, the 2nd December 2003

No. 99/E(GR) I/3/1.—The President is pleased to appoint the following probationers in the Indian Railway Service of Engineers with effect from the date noted against each:—

S. No.	Name	Date of Joining
	(S/Shri/Ms.)	
1.	Anupam Singh	20-09-1999
2.	Gaurav Jindal	20-09-1999
3.	Pankaj Kumar Gupta	20-09-1999
4.	K. V. Rama Meher	20-09-1999
5.	Ajit Kumar Mishra	20-09-1999
6.	Dhananjaya Singh	20-09-1999
7.	Bhangale Vinod Madhukar	20-09-1999
8.	Sanjay Kumar Singh	20-09-1999
9.	Natraj Singh	20-09-1999
10.	Radha Mohan Singh	20-09-1999
11.	Rajesh Kumar Srivastava	20-09-1999
12.	Dharmendra Kumar Pandey	27-09-1999

1	2	3
13.	Anirudha Mohan Kaushal	20-09-1999
14.	Ajaya Kumar Samal	20-09-1999
15.	Mohammad Shamim	20-09-1999
16.	Rajesh Kumar Garg	20-09-1999
17.	Srijah Tripathi	20-09-1999
18.	Akhil Kumar Agarwal	20-09-1999
19.	Raghu Nandan Gupta	27-12-1999
20.	Hafeezulla Gul Ashfaq Mohammed	27-09-1999
21.	Ram Kumar Singh	27-12-1999
22.	Ashok Kumar Pandey	20-09-1999
23.	Karuturi Suryanarayana (Provisional)	29-09-1999
24.	Mukul Pant	20-09-1999
25.	Ashish Srivastava	20-09-1999
26.	Mona Srivastava	20-09-1999
27.	Shailendra Kumar Singh (Provisional)	20-09-1999
28.	Dasari Subrahmanyam	20-09-1999
29.	Prem Prakash Pandey	20-09-1999
30.	Ram Prawesh Yadav	20-09-1999
31.	Rahul Srivastava	20-09-1999
32.	Ravinder Singh Rajpal	20-09-1999
33.	Dhaval Srinivasa Rao	20-09-1999
34.	Jitendra Kumar	20-09-1999
35.	Saurabh Singh Patel	20-09-1999
36.	Indra Jeet Verma	23-09-1999
37.	B.N.S. Chalam	20-09-1999
38.	Alok Kumar	20-09-1999
39.	Dharma Prakash	20-09-1999
40.	Anil Kumar	20-09-1999
41.	Manoj Kumar Singh	20-09-1999
42.	Sushil Kumar Yadava	20-09-1999
43.	Niraj Kumar (Provisional)	20-09-1999
44.	Rajeev Kumar Gupta	20-09-1999
45.	Shailesh Kumar Maurya (Provisional)	27-12-1999
46.	Anand Bharti	27-12-1999
47.	Dinesh Kumar Sharma	27-12-1999
48.	Rajesh Kumar Singh	27-12-1999
49.	Priyav Kumar	20-09-1999
50.	Ashok Kumar Suryawanshi	20-09-1999
51.	Sanjeev Kumar	20-09-1999
52.	Avneesh Verma	20-09-1999
53.	Vinod Kumar Paswan (Provisional)	20-09-1999
54.	Yogesh Verma	20-09-1999
55.	Sushil Kumar	20-09-1999
56.	Vinod Kumar	20-09-1999
57.	Kamble Vilas Laxmanrao	20-09-1999
58.	Sujeet Sangam Priyadarshi	20-09-1999
59.	Mukesh Kumar Meena	20-09-1999
60.	Mahesh Babu Rao Dekate	20-09-1999

MANEESH KUMAR
Jt. Dir., Estt. (GR)
Railway Board

New Delhi, the 3rd December 2003

No. 2001/E(GR)/1/10/1—The President is pleased to appoint the following probationers in the Indian Railway Accounts Service with effect from the date noted against each:—

S. No.	Name	Date of Joining
	(S/Shri/Ms.)	
1.	Amrita Joshi	02.09.2001
2.	Anand Kumar	02.09.2001
3.	Indu C. Nair	02.09.2001
4.	Atul Chhabra	24.12.2001
5.	Tripuresh Dhar Diwivedi	24.12.2001
6.	Arvind Sharma	02.09.2001
7.	N. Venkadesh	24.12.2001
8.	K.R. Abhishekananda Rao	10.09.2001
9.	Arvind Kumar	24.12.2001
10.	S. Selva Lakshmi	02.09.2001
11.	Kusuma M.R.	02.09.2001
12.	Makwana Bhavnaben Mahijihhai	24.12.2001
13.	Anoop Kumar Gautam	24.12.2001
14.	Gaisingam Kabui	10.09.2001
15.	Priyanka Basu Ingty	02.09.2001

MANEESH KUMAR

Jt. Director, Estt. (GR), Railway Board

New Delhi, the 4th December 2003

No. 2001/E(GR)/1/32/1—The President is pleased to appoint the following probationers in the Indian Railway Personnel Service with effect from the date noted against each:—

S.No.	Name	Date of Joining
	(S/Shri/Ms.)	
1.	Patidar Sukhdevendra Dayanand	02.09.2001
2.	Amit Verma	02.09.2001
3.	Yatri Dinesh Dave	02.09.2001
4.	Amar Nath Duhe	24.12.2001
5.	Prashant Tripathi	24.12.2001

S.No.	Name	Date of Joining
	(S/Shri/Ms.)	
6.	Jyotsna Pande	02.09.2001
7.	Jagtap Goraksha Vishwanath	02.09.2001
8.	Timothy Tajonang Gonmei	24.12.2001

MANEESH KUMAR

Jt. Director, Estt. (GR), Railway Board

No. ERB-1/2003/2/102—Shri S.P.S. Jain, IRSE, General Manager/Central Railway is appointed as Member (Engineering), Railway Board and ex-officio Secretary to the Government of India, with effect from the afternoon of 30.11.2003.

R.R. BHANDARI

Secy., Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi-110001, the 3rd December 2003

No. A-38015/3/2003/Estt.—Shri T.K. Datta, Deputy Director (Mech.), in the Ministry of Shipping, on attaining the age of superannuation, has retired from Government service w.e.f. 30.11.2003(AN).

S.K. SHAHI, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND
POVERTY ALLEVIATION

(DELHI DIVISION)

New Delhi, the 24th November 2003

No. K-11011/13/96-DDIA—In exercise of the powers conferred by Clause (d) of Sub-Section (3) of Section 3 of Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government hereby appoints Shri Prabhash Singh, Chief Engineer, CPWD as Engineer Member in the Delhi Development Authority in the pay scale of Rs. 18400-22400+Special pay of Rs. 300/- per month for a period of three years from the date of taking over charge or upto the date of his superannuation on 30.9.2005 or until further orders whichever is earliest.

PARMJIT SINGH

Desk Officer (DDIA)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2003

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2003